

## पढ़क्कू की सूझ

### कठिन शब्द

1. पढ़क्कू
2. तर्कशास्त्र
3. कोल्हू
4. मालिक
5. गर्दन
6. मंतिख

### शब्द –अर्थ

1. पढ़क्कू – ज्यादा पढ़ने वाला
2. गज़ब – आश्चर्य
3. मंतिख – तर्कशास्त्र

### विलोम शब्द

1. साँझ x सुबह
2. मालिक x नौकर
3. चलना x रुकना
4. तनिक x खूब

### नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो

- 1) बहुत अधिक पढ़ने वाला – पढ़क्कू
- 2) बहुत अधिक लड़ने वाला – लड़ाकू
- 3) बहुत अधिक बोलने वाला – बातूनी
- 4) बहुत अधिक खाने वाला – पेटु
- 5) बहुत अधिक खर्च करने वाला – खर्चीला

### # पढ़क्कू बातें बनाते थे , निम्न लोग क्या बनाते हैं –

- 1) कुम्हार मटके
- 2) सुनार आभूषण
- 3) कवि कविता
- 4) लेखक कहानी

## प्रश्न –उत्तर

प्रश्न – 1 पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा ?

उत्तर – पढ़क्कू का नाम अत्याधिक पढ़ने के कारण पढ़क्कू पड़ा होगा ।

प्रश्न – 2 पढ़क्कू क्या पढ़ते थे ?

उत्तर \_ पढ़क्कू तर्कशस्त्र पढ़ते थे ।

प्रश्न -3 पढ़क्कू ने कोल्हू के बैल के बारे में क्या सोचा ?

उत्तर – पढ़क्कू ने कोल्हू के बैल के बारे में यह सोचा कि इसके मालिक ने इसे कोई तरीका सीखा रखा है ।

प्रश्न -4 पढ़क्कू ने बैल के मालिक से क्या कहा ?

उत्तर – पढ़क्कू ने बैल के मालिक से यह कहा कि अगर तुम्हारा बैल किसी दिन काम नहीं करे ,बस खड़ा –खड़ा गर्दन कि घंटी को हिलाये तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ।

प्रश्न -5 मालिक ने पढ़क्कू को क्या जवाब दिया ?

उत्तर – मालिक ने पढ़क्कू को यह जवाब दिया कि मेरे बैल ने तुम्हारी तरह मंतिख नहीं पढ़ा है ।

## # निम्न मुहावरों के अर्थ लिखो –

- 1) अक्ल का दुश्मन – मूर्ख व्यक्ति
- 2) अक्ल के घौड़े दौड़ाना – दिमाग चलाना
- 3) उल्लू बनाना – पागल बनाना
- 4) कमर कसना – तैयार होना
- 5) किताबी कीड़ा – ज्यादा पढ़ाकू